



# AGRA POLICE

"सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा"



प्रेस नोट थाना एत्मादौला जनपद आगरा 06.09.2021

**थाना एत्मादौला पुलिस टीम द्वारा नकली मोबिल ऑयल बनाने वाले रु0 25,000/- इनामी सहित कुल 04 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से नकली मोबिल ऑयल व अन्य सामान बरामद ....**

दिनांक 05.09.2021 को चैकिंग/गश्त के दौरान थाना एत्मादौला पुलिस टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि नगला देवजीत के पास रेलवे ग्राउण्ड में विभिन्न कम्पनियों के नकली इंजन ऑयल को डिब्बों में भरकर असली के रूप में पैकिंग कर बाजार में बेचने हेतु पिकअप मैक्स से जा रहे हैं। यदि जल्दी की जाए तो पकड़े जा सकते हैं।

थाना एत्मादौला पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुये मुखबिर के बताये स्थान से 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया एवं 02 अभियुक्त भागने में सफल रहे। अभियुक्तगण से बरामद नकली मोबिल ऑयल व अन्य सामान के आधार पर थाना एत्मादौला पर मु0अ0सं0 578/21 धारा 420/467/468/471 भादवि व 63/65 कॉपीराइट एक्ट पंजीकृत किया गया।

दिनांक 06.09.2021 को उपरोक्त अभियोग में फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु एत्मादौला पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर फरार/वांछित रु0 25,000/- के इनामी अभियुक्त मौहम्मद शान उर्फ शन्नो को गिरफ्तार कर लिया गया।

## ➤ गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण:-

1. यासीन उर्फ सोनू पुत्र नवाबुद्दीन निवासी रोशन मोहल्ला थाना कोतवाली जनपद आगरा।
2. समीर पुत्र सलीम निवासी शहीद नगर थाना सदर जनपद आगरा।
3. साहिल पुत्र शाहिद निवासी जीन खाना थाना छत्ता जनपद आगरा।
4. मौहम्मद शान उर्फ शन्नो पुत्र हाजी अकील निवासी पातीराम गली छत्ता बाजार थाना छत्ता आगरा।

## ➤ बरामदगी का विवरण:-

1. 15 पेटी भरी होण्डा 4 स्ट्रोक इंजन ऑयल ।
2. 27 पेटी खाली डिब्बा ।
3. 1,000 नकली ढक्कन टैग कम्पनी कैस्ट्रोल ।
4. 121 स्टीकर बजाज कम्पनी डीटीएस वन ।
5. 1,000 सील बजाज प्रीमियम इंजन ऑयल ।
6. 01 मोहर स्टाम्प पैड ।
7. 02 अदद वाहन ( 01 अदद मैक्स पिकअप व 01 अदद लोडर टैम्पो ) ।

## ➤ आपराधिक इतिहास:-

### ● अभि० यासीन उर्फ सोनू, साहिल व समीर उपरोक्त -

1. मु०अ०सं० 578/21 धारा 420/467/468/471 भादवि व 63/65 कॉपीराइट एक्ट थाना एत्मादौला जनपद आगरा ।

### ● अभि० शानू उर्फ शन्नो उपरोक्त-

1. मु०अ०सं० 578/21 धारा 420/467/468/471 भा०द०वि० व 63/65 कापीराइट एक्ट थाना एत्मादौला जनपद आगरा ।
2. मु०अ०स० 809/20 धारा 420/467/468/471 भादवि व 63/65 कापीराइट एक्ट थाना एत्मादौला जनपद आगरा ।
3. मु०अ०स० 186/20 धारा 420/467/468/471/120बी भादवि व 63/65 कापीराइट एक्ट थाना छत्ता जनपद आगरा ।

## ➤ पुलिस टीम का विवरण:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री देवेन्द्र शंकर पाण्डेय थाना एत्मादौला मय टीम जनपद आगरा ।

मीडिया सेल जनपद आगरा ।